



राजस्थान सरकार

हवामहल

(कोरोना समय में बच्चों का झरोखा)

29 मई 2021: शनिवार: वर्ष-02: अंक - 04



RSCERT Udaipur



सालाना बाल-कटाई दिवस

आज की कहानी

"संगेरी श्रीनिवास के बहुत लम्बे बाल थे। वह सालाना बाल-कटाई दिवस पर उन्हें कटवाना चाहता था। परन्तु किसी के पास वक्त नहीं था। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि उस दिन संगेरी की मदद किसने की। इस मजेदार कहानी को सुनने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक करें और कहानी सुनें।"

3 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | स्टोरीवीवर




सफ़ेद गुड़

आज की कहानी

"दुकान पर सफेद गुड़ रखा था। दुर्लभ था। उसे देखकर बार-बार उसके मुँह से पानी आ जाता था। आते-जाते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन मसोसकर रह जाता। क्या उसे गुड़ खाने को मिला? जानने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक करें और कहानी सुनें।"

6 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | गाता जाये नन्हा पंख




वो आदमी जिसे किताबों से प्यार था

आज की किताब

"यह कहानी आयरलैंड में रहने वाले एक व्यक्ति कोलंबा की है। पहले किताबें इतनी आसानी से नहीं मिलती थीं। इसलिए लोग हाथ से लिखकर किताबों की नकल तैयार करते थे। इस बार कोलंबा को किताब तो मिली पर उसे नकल करने की अनुमति नहीं मिली। आगे क्या हुआ? इस सुंदर सी कहानी को पढ़ने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक करें।"

6 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | अरविंद गुप्ता टॉयज़



कागज के फूल जरबेरा

आज की गतिविधि

"इस गतिविधि में आप कागज़ के रंग-बिरंगे फूल बनाना सीखेंगे। ये फूल वास्तविक फूलों जैसे ही तो दिखते हैं। इस गतिविधि को आपके लिए अरविंद गुप्ता जी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस गतिविधि के वीडियो को देखने के लिए चित्र पर क्लिक करें।"

6 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | अरविंद गुप्ता टॉयज़



भाषा शिक्षण और भाषाई खेल

टीचर्स कॉर्नर

"बच्चों के जीवन और शिक्षा में खेलों का महत्त्व जगज़ाहिर है। कई खेल गाहे-बगाहे शुरुआती कक्षाओं के बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास में मददगार होते हैं। प्रस्तुत लेख में कुछ ऐसे ही पारम्परिक और ईज़ाद किए खेलों के उपयोग से भाषा शिक्षण को रुचिकर, सहभागी और अर्थपूर्ण बनाने के तरीके सुझाए गए हैं।"

शिक्षकों के लिए | संदर्भ पत्रिका




#घरमेंरहें



#आनन्दसेपढ़ें

सूचना - हवामहल के माध्यम से कहानियों के प्रसारण हेतु शिक्षक साथी अपनी पसंदीदा कहानियों का ऑडियो, किताब एवं लेखक के विवरण सहित हमसे hawamahal.rscert@gmail.com पर साझा करें। ऑडियो की अवधि 5 मिनट से अधिक न हो एवं गुणवत्ता अच्छी हो।



आज का अंक आपको कैसा लगा ?

अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए सुझाव पेटिका के चित्र पर क्लिक करें।